

तुरंत रिलीज के लिए

## 2021 की न्यू यीअर्स लेवी के लिए मेयर पैट्रिक ब्राउन और काउंसलरों से ऑनलाइन जुड़ें

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (9 फरवरी, 2021) – शनिवार, 13 फरवरी को सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक, लंबे समय से चलती आ रही परंपरा, मेयर्स न्यू यीअर्स लेवी (Mayor's New Year's Levee) के लिए आभासी (वर्चुअल) तौर पर मेयर पैट्रिक ब्राउन और काउंसिल के मेम्बरों से जुड़ें।

इस वर्ष, कोविड-19 (COVID-19) के कारण और पूरे प्रांत के बंद होने से, मेयर्स लेवी (Mayor's Levee) का आयोजन ऑनलाइन किया जाएगा। मेयर ब्राउन और काउंसिल के मेम्बर, स्वागत के संदेश पेश करेंगे, उसके बाद मेयर का नववर्ष का संबोधन होगा।

इस कार्यक्रम के हिस्से के तौर पर, लोग ब्रैम्पटन संबंधी विविध विषयों की गेम के साथ, ब्रैम्पटन के बारे में अपने ज्ञान को परख सकते हैं। यह गेम, क्यूट (Kahoot) ऐप (जिसे ऐप स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है) या ऑनलाइन, [www.kahoot.it/](http://www.kahoot.it/) पर प्रयोग करते हुए, सेल फोनों पर खेला जा सकती है। पांच सर्वोत्तम प्रतियोगी, डाउनटाउन के हिस्सा लेने वाले कारोबारों के ई-गिफ्ट कार्ड जीतेंगे, जो कर्बसाइड पिकअप (पगडंडी के किनारे से वस्तुएं लेना) के साथ-साथ, ऑनलाइन खरीदारी की पेशकश करते हैं।

इस वर्ष की लेवी में आभासी फोटो बूथ भी पेश किया जाएगा, जहां लोग अपनी और परिवार की तस्वीरें खींचकर, उन फोटो को हैशटैग #BramptonLevee के साथ ऑनलाइन साझा कर सकते हैं।

ब्रैम्पटन की अपनी क्रिस्टीना होवोरन (Cristina Howorun), कार्यक्रम की मेजबानी करेंगी, जो टोरोंटो में सिटी टीवी (CityTV) की अवॉर्ड-विजेता पत्रकार हैं।

कार्यक्रम संबंधी सभी विवरण ऑनलाइन, [www.brampton.ca/events](http://www.brampton.ca/events) पर देखें।

न्यू यीअर्स लेवी एक परंपरा है, जिसे कैंनेडा में सरकार के फेडरल, प्रोविंसियल, रीजनल और म्युनिसिपल लेवल्स में मनाया जाता है। वर्षों से, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन की न्यू यीअर्स लेवी ने, निवासियों को जश्न का माहौल और मेयर तथा काउंसलरों से मिलने का अवसर प्रदान करते हुए, कई अलग-अलग तरीके अपनाए हैं।

### हवाला

“न्यू यीअर्स लेवी की परंपरा, नववर्ष की शुभकामनाएं आदान-प्रदान करने के लिए है। यह ब्रैम्पटन में, पिछले वर्ष के कार्यक्रमों को याद करने और आगामी वर्ष के अवसरों का स्वागत करने का भी मौका है। हालांकि, इस वर्ष, न्यू यीअर्स लेवी अलग होगी, फिर भी परंपरा को जारी रखना महत्वपूर्ण है। मैं इस वर्ष के जश्नों हेतु निवासियों से जुड़ने के लिए उत्साहित हूँ।”

– पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 650,000 लोगों और 70,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) पर और जानें।

**मीडिया संपर्क**

गुरविंदर सिंह (Gurvinder Singh)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-2028 | [Gurvinder.A.Singh@brampton.ca](mailto:Gurvinder.A.Singh@brampton.ca)